

Dear Author,

Greetings of the day!

Hope you are doing well. As you are aware that digital platforms are the need of the hour, therefore, 'Digital India' has become our motto and it has inspired us to create a digital platform for our authors, who wish to publish their books at Publications Division. We named this platform- AMS (Author Management System). This platform has been conceptualised to wipe out the old practices of manuscript submission like sending via registered post/ courier, email or by hand.

AMS is an open platform to all and available at www.publicationsdivision.nic.in/ERP. It offers the authors to submit their manuscripts any time directly to Publications Division. It also provides an online facility to the authors to track the progress of their manuscript at the end of Publications Division.

Using this platform is as easy as using a Gmail or Yahoo email account. Anyone who has an active email Id and a mobile no. can make a login Id by clicking the link given above. This link is also available at our website (www.publicationsdivision.nic.in). After the creation of login Id, 'Submit book' option will be seen under the 'Book Master' subhead which appears below the 'AMS' subhead on the homepage of the system.

It is requested to use our platform AMS for the submission of manuscripts/ book proposal/ synopsis for editorial evaluation. In case of any difficulty, assistance one may contact via email dpd.publications@gmail.com or mobile 7905532375 (Mr. Abhishek Chaturvedi, Editor).

(Rakeshrenu)
Deputy Director (Ed.)

नमस्कार!

आशा है आप स्वस्थ और सानन्द हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल होना वर्तमान समय की अपरिहार्य आवश्यकता है। 'डिजिटल इंडिया' के हमारे ध्येय ने हमें उन लेखकों के लिए एक डिजिटल मंच बनाने के लिए प्रेरित किया है, जो प्रकाशन विभाग से अपनी पुस्तक प्रकाशित कराना चाहते हैं। हमने इस मंच को नाम दिया है- AMS यानी ऑथर मैनेजमेंट सिस्टम। इस मंच की संकल्पना पांडुलिपि जमा करने के प्रचलित तौर-तरीकों जैसे पंजीकृत डाक/ कूरियर, ईमेल या व्यक्तिगत प्रयास आदि का स्थान लेने के लिए की गई है।

AMS सभी के लिए एक खुले मंच की तरह है और www.publicationsdivision.nic.in/ERP पर उपलब्ध है। यह लेखकों को किसी भी समय सीधे प्रकाशन विभाग को अपनी पांडुलिपियां भेजने की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही यह लेखकों को प्रकाशन विभाग में अपनी पांडुलिपियों की प्रगति को जानने की ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराता है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग जीमेल या याहू ईमेल अकाउंट का उपयोग करने जितना सरल है। कोई भी व्यक्ति, जिसके पास एक सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके लॉगिन आईडी बना सकता है। यह लिंक हमारी वेबसाइट (www.publicationsdivision.nic.in) पर भी उपलब्ध है। यहां लॉगिन आईडी बनाने के बाद, डैशबोर्ड पर 'AMS' सबहेड के तहत 'बुक मास्टर' सबहेड के नीचे 'सबमिट बुक विकल्प प्राप्त होगा।

आपसे विनमतापूर्वक अनुरोध है कि संपादकीय मूल्यांकन के लिए पांडुलिपियां/ पुस्तक का प्रस्ताव/ सारांश प्रेषित करने के लिए AMS का उपयोग करें। किसी कठिनाई की स्थिति में, ईमेल dpd.publications@gmail.com या फोन 7905532375 (अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक) के माध्यम से सहायता हेतु संपर्क किया जा सकता है।

(राकेशरेणु)
उप निदेशक (संपादकीय)